

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	25621348.1	26423992.1	27187715.6	27844981.1
<i>जीडीपी का प्रतिशत</i>	<i>102.8</i>	<i>102.6</i>	<i>103.3</i>	<i>103.5</i>
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	11843527.1	12143059.7	12399459.4	12707326.2
i. वाणिज्यिक बैंक	10987692.1	11288257.2	11536717.0	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	855834.9	854802.6	862742.4	885641.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
<i>जिसमें से:</i>				
अन्य वित्तीय संस्थान	216170.0	218246.7	226328.2	228562.2
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.2	78061.4	81308.3	85254.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	5325967.3	5559681.9	5786592.6	5795430.6
(डी) मुद्रा	2950343.2	2895763.9	2972524.0	3121514.1
(ई) म्यूचुअल फंड	2048097.3	2260209.7	2355315.8	2367792.5
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	851913.4	858591.1	864730.6	939449.0
(जी) पेंशन निधि	744459.2	796454.0	853412.0	898343.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1640870.6	1691985.1	1729352.9	1786563.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	8911860.9	9246740.6	9700657.2	10217744.7
<i>जीडीपी का प्रतिशत</i>	<i>35.8</i>	<i>35.9</i>	<i>36.9</i>	<i>38.0</i>
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	7095467.7	7358918.0	7729700.9	8113544.1
<i>जिसमें:</i>				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7249643.0	7580934.1
ii. सहकारी बैंक	473897.0	476024.8	478486.9	530915.0
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1816393.1	1887822.6	1970956.3	2104200.7
<i>जिसमें:</i>				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	869174.9	905825.3	961617.0	1056182.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii. बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118156.7

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	28754605.9	29637615.0	30737884.8	32025210.0
जीडीपी का प्रतिशत	104.2	104.4	105.0	106.3
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	12960330.3	13462098.8	13739530.7	14130251.1
i. वाणिज्यिक बैंक	12065518.9	12567779.6	12847876.2	13231336.9
ii. सहकारी बैंक	894811.4	894319.2	891654.5	898914.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	228076.8	120094.7	125432.4	127257.3
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91373.3	96155.6	101051.4	102994.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	136703.5	23939.1	24381.0	24263.0
(सी) जीवन बीमा निधि	6064436.9	6255801.1	6553726.0	6820611.8
(डी) मुद्रा	3072877.9	3036177.0	3092896.0	3239539.8
(ई) म्यूचुअल फंड	2626046.1	2829859.3	3156299.3	3387208.3
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	955060.6	960343.6	964851.5	1051376.5
(जी) पेंशन निधि	970016.0	1017975.0	1091276.0	1172651.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1877761.2	1955265.4	2013872.8	2096314.2
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	10539264.5	11065280.7	11575797.1	12096410.5
जीडीपी का प्रतिशत	38.2	39.0	39.6	40.2
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	8327150.3	9196024.2	9598671.3	9991001.8
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	7788960.6	8664614.6	9054512.6	9437070.5
ii. सहकारी बैंक	536409.2	529527.7	542240.6	551852.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	2212114.2	1869256.5	1977125.7	2105408.7
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1137631.1	1197314.8	1282346.6	1383183.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	953645.7	549351.7	570585.1	596438.0
iii. बीमा निगम	120837.4	122590.0	124194.0	125787.7

सं.52(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2024	सितं-2024	दिसं-2024	मार्च-2025
	1	2	3	4
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	33253098.6	34421189.5	34532805.6	35264710.9
जीडीपी का प्रतिशत	107.9	109.6	107.2	106.6
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	14385136.5	14773465.1	14914755.1	15316332.6
i. वाणिज्यिक बैंक	13482508.0	13872242.0	14020106.6	14415444.1
ii. सहकारी बैंक	902628.6	901223.2	894648.5	900888.5
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	134718.7	137760.5	142570.3	146955.5
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	109284.0	112514.0	116958.5	121178.5
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	25434.7	25246.5	25611.9	25777.0
(सी) जीवन बीमा निधि	7123527.6	7385938.1	7272871.3	7293099.1
(डी) मुद्रा	3273752.3	3216137.1	3286977.8	3449213.9
(ई) म्यूचुअल फंड	3866386.1	4291914.4	4224091.7	4128924.5
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	1059829.5	1063056.1	1064212.0	1157449.2
(जी) पेंशन निधि	1247832.0	1337535.0	1371615.0	1443509.0
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	2161915.8	2215383.2	2255712.2	2329227.2
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	12384902.9	12789183.5	13207625.1	13662338.5
जीडीपी का प्रतिशत	40.2	40.7	41.0	41.3
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	10196042.2	10518189.9	10837816.5	11224862.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	9645595.7	9966837.1	10269406.4	10649262.8
ii. सहकारी बैंक	548284.4	549069.4	566104.4	573131.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	2188860.7	2270993.6	2369808.7	2437476.4
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1448996.8	1514485.5	1590250.0	1630083.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	611563.2	625796.8	646358.2	672115.0
iii. बीमा निगम	128300.7	130711.4	133200.5	135277.5

टिप्पणियाँ: 1. डीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 30 मई 2025 को जारी राष्ट्रीय आय 2024-25 के अंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमाराशियों के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।